



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आश्विन 1937 (श10)

(सं० पटना 1188) पटना, वृहस्पतिवार, 8 अक्टूबर 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

14 अगस्त 2015

सं० 1561—पटना जिलान्तर्गत गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी प्रबंध न्यास समिति, रोड नं०-12, गर्दनीबाग पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०- 1391 है।

इस न्यास की व्यवस्था हेतु पर्षदीय ज्ञापांक-2736, दिनांक 13/10/2000 के माध्यम से एक न्यास समिति का पुर्नगठन किया गया था। यह समिति 23 सदस्यीय न्यास समिति थी। न्यास समिति के दो सदस्य श्री श्यामनंदन प्रसाद एवं ई० अशोक कुमार के निधन हो जाने के कारण तथा न्यास समिति के बेहतर व्यवस्था और प्रबंधन के लिए पर्षदीय ज्ञापांक- 2501, दिनांक 06/08/2002 के माध्यम से 21 सदस्यीय न्यास समिति का पुर्नगठन किया गया था। न्यास समिति के सचिव ने अपने पत्रांक-04, दिनांक 25/07/2014 के माध्यम से पर्षद को सूचित किया कि न्यास समिति के सदस्य ई० शिवनन्दन प्रसाद, जे० पी० श्रीवास्तव और विनय कुमार प्रसाद का निधन हो चुका है, जबकि कुछ सदस्य पिछली कई बैठकों से लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं। अधिनियम में संशोधन के उपरांत न्यास समिति के सदस्यों की अधिकतम सीमा 11 से अधिक नहीं रहेगी।

न्यास समिति के सचिव ने अपने पत्रांक-08, दिनांक 10/07/15 के माध्यम से सूचित किया कि उनकी अध्यक्षता में दिनांक 27/06/2015 को न्यास समिति की बैठक आहुत की गई, जिसमें सर्वसम्मति से न्यास समिति के पुर्नगठन एवं अनुशंसित नामों की न्यास समिति के गठन किये जाने का अनुरोध किया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस न्यास के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा- 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं० 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए “गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी प्रबंध न्यास समिति, रोड नं०-12, गर्दनीबाग, पटना 800002” के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति पुर्नगठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी प्रबंध न्यास योजना, रोड नं०- 12, गर्दनीबाग, पटना-800002” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी प्रबंध न्यास समिति, रोड नं०-12, गर्दनीबाग, पटना-800002” होगा, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तारित भूमि “यदि कोई हो तो”, उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को न्यास समिति का पुर्नगठन किया जाता है:-

- | | | | |
|------|---|---|------------|
| (1) | श्री अरुण कुमार वर्मा, राज्य सूचना आयुक्त
पता- एन0वाई- 23, “दीप सदन” न्यू यारपुर रोड, गर्दनीबाग, पटना- 1 | — | अध्यक्ष |
| (2) | डॉ० संजीव कुमार (विभागाध्यक्ष, हृदय रोग)
पता- अखिल भारतीय हृदय रोग संस्थान, न्यू यारपुर रोड, पटना- 1 | — | सचिव |
| (3) | श्री सुधाकर प्रसाद सिन्हा
पता- चटर्जी लेन, साधनापुरी, गर्दनीबाग, पटना- 2 | — | कोषाध्यक्ष |
| (4) | डॉ० गोपाल प्रसाद सिन्हा (फिजिशियन)
पता- उत्तरी श्रीकृष्णापुरी, पटना- 1 | — | सदस्य |
| (5) | श्री अशोक कुमार सिंह (आई०पी०एस०, अ०प्रा०)
पता- राजपुताना, यारपुर, पटना- 1 | — | सदस्य |
| (6) | ई० विनोद शंकर
पता- 59, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना- 13 | — | सदस्य |
| (7) | ई० कुमार विजय प्रताप सिंह
पता- एम-3/40, श्रीकृष्णापुरी, पटना- 1 | — | सदस्य |
| (8) | डॉ० रनवीर नन्दन
पता- नन्दन बिला, अनीसाबाद मोड़, पटना- 2 | — | सदस्य |
| (9) | डॉ० अमलेश (दंत चिकित्सक)
पता- अनीसाबाद मोड़, पटना- 2 | — | सदस्य |
| (10) | श्री अंजनी कुमार सिन्हा (अपर पुलिस अधीक्षक, अ०प्रा०)
पता- सरिस्ताबाद, पटना- 1 | — | सदस्य |
| (11) | श्रीमती अंजु पांडेय (धर्म-परायन समाज सेवी)
पता- चन्द्रा प्लैट, पुनाईचक, पटना- 23 | — | सदस्य |

12. इस न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्ष तक लागू रहेगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा एवं कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर न्यास समिति भंग की जा सकती है।

आदेश से,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1188-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>